



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 25.02.21



आरक्षी उमाशंकर यादव (उम्र 25 वर्ष) पुत्र जयकरण यादव पीएनओ-182432460 निवासी ग्राम मड़वा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी जो दिनांक 27-01-2019 से थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी में नियुक्त थे। दिनांक 06-02-2021 को एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में शारदा नहर में गिर गए थे जिनकी तभी से लगातार तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 25-02-2021 को आरक्षी उमाशंकर का मृत शरीर शारदा नहर से बरामद किया गया।

पुलिस लाइन्स खीरी परिसर में शहीद स्मारक पर पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल; क्षेत्राधिकारी सदर, श्री अरविन्द कुमार वर्मा; प्रतिसार निरीक्षक खीरी, श्री शिवनारायण; प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर, श्री सुनील कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा मृतक आरक्षी उमाशंकर यादव के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा पार्थिव शरीर को कन्धा देकर अन्तिम विदाई दी गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस बरामद कर अभियुक्त शिवदास पुत्र कामताप्रसाद को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 25.02.21 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर अभियुक्त शिवदास पुत्र कामताप्रसाद नि0 संसारपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मैलानी पर अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया है।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित व 10,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त सीताराम पुत्र कालिका गौतम को अवैध शस्त्र कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.02.2021 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 मु0अ0स0 322/20 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 387/20 धारा 401 भादवि में वांछित व 10,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त सीताराम पुत्र कालिका गौतम निवासी बेतीपूरब थाना ईसानगर खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 05 नफर वारंटियों को गिरफ्तार कर मा0

न्यायालय भेजा गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.02.2021 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 226/20 धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित 04 नफर वारंटी 1.ओमप्रकाश 2. सुरेश पुत्रगण रामवृक्ष 3. जगन्नाथ पुत्र मेवाराम 4. अक्षयराम पुत्र मोहनलाल नि0गण ग्राम बण्टुकरा मजरा बेलागढ़ी थाना ईसानगर खीरी व मु0अ0सं0 75/2018 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वारंटी 5. चिम्पू पुत्र बलेश्वर नि0 ग्राम पचासा थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 86/21 धारा 436/504 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सर्वेश पुत्र रामकुमार नि0 झण्डीराज थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 75 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना खीरी	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मैगलगंज	15 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैलानी	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना तिकुनिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	75 लीटर	06 अभियुक्त गिरफ्तार